



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 08—नवम्बर 14, 2008 (कार्तिक 17, 1930)  
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 08—NOVEMBER 14, 2008 (KARTIKA 17, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 मार्च 2008

सं० एफ० 15/28/2004/जी एन-6035/एन ए—श्री एस०पी० वर्मा को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में रक्षा संबंधी समिति के सभापति (श्री बालासाहिब विखे पाटील) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 1 फरवरी 2008 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एस०पी० वर्मा की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और रक्षा संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम रक्षा संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं० एफ० 15/26/2004/जी एन-6034/ए एन-I—श्री हरप्रीत सिंह, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, अकाशवाणी, जालंधर; जो प्रतिनियुक्ति/सह-विस्तार आधार पर लोक सभा के माननीय उपाध्यक्ष (श्री चरणजीत सिंह अटवाल) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे, की सेवाएं 13 मार्च 2008 के अपराह्न से प्रतिनियुक्ति आधार पर गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा

एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जी ए डी बी ए एस यू), लुधियाना को सौंपी जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं० एफ० 15/26/2004/जी एन-6044/ए एन-I—लोक सभा के माननीय उपाध्यक्ष (श्री चरणजीत सिंह अटवाल) के अतिरिक्त निजी सचिव श्री सुनील कुमार चड्ढा की सेवाएं 9 अप्रैल, 2008 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जून 2008

सं० एफ० 15/28/2004/जी एन-6052/ए एन-I—कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सभापति (डॉ० सत्यनारायण जटिया) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव श्री आर० कुमार की सेवाएं 21 मई, 2008 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

(अभिजीत कुमार) निदेशक

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन.-6054/ए.एन.-1। श्री मुंशी लाल कश्यप को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सभापति (श्री कल्याण सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 28 मई, 2008 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

2. श्री मुंशी लाल कश्यप को वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन.-6050/ए.एन.-1। ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सभापति (श्री कल्याण सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव श्री अलोक कुमार श्रीवास्तव को सेवाएं 27 मई, 2008 के अवरतन में समाप्त की जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 10 जून 2008

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन.-6054/ए.एन.-1। श्री जगू प्रवेश को 22 मई, 2008 से, 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सभापति (श्री सत्यनारायण अटवाल) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, अगले आदेशों तक, नियुक्त किया जाता है।

2. श्री जगू प्रवेश को वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर तथा कोयला और इस्पात संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

(अभिजीत कुमार, निदेशक)

दिनांक 8 जुलाई 2008

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन.-6072/ए.एन.-1। अध्यक्ष महादय, डाक विभाग, 80000-275-13500 रुपये के वेतनमान में श्री सिद्धार्थ नेथानी का लोक सभा में विपक्ष के नेता (श्री लालकृष्ण आडवाणी) के सहायक निजी सचिव के रूप में सह-विस्तारी आधार पर 9 जून, 2008 से, अगले आदेशों तक, महर्षि नियुक्त करते हैं।

2. श्री सिद्धार्थ नेथानी को लोक सभा में विपक्ष के नेता (श्री लालकृष्ण आडवाणी) के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति, सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा में विपक्ष के वर्तमान नेता के प्रसाद पर्यन्त होगी।

दिनांक 20 जुलाई 2008

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन.-6084/ए.एन.-1। श्री पी.के. भंडारी को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में रक्षा संबंधी समिति के सभापति (श्री बालासाहेब विखे पाटील) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 1 जून, 2008 से अगले आदेशों तक, नियुक्त किया जाता है।

2. श्री पी.के. भंडारी को वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और रक्षा संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम रक्षा संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन.-6083/ए.एन.-1। श्री एस.पी. वर्मा, रक्षा संबंधी समिति के सभापति (श्री बालासाहेब विखे पाटील) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव को सेवाएं 21 मई, 2008 के अवरतन में समाप्त की जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 30 जुलाई 2008

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन.-6086/ए.एन.-1। अध्यक्ष महादय, डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निदेशक (एफ.एस.), श्री राजेंद्र कुमार कश्यप, (आई.पी.ओ.एस. 1989) को 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में लोक सभा के माननीय उपाध्यक्ष (श्री चरणजीत सिंह अटवाल) के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्याधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर 29 जुलाई, 2008 से अगले आदेशों तक, महर्षि नियुक्त करते हैं।

2. लोक सभा के माननीय उपाध्यक्ष (श्री चरणजीत सिंह अटवाल) के वैयक्तिक स्टाफ में श्री राजेंद्र कुमार कश्यप की नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और लोक सभा के वर्तमान माननीय उपाध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त होगी।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 13 मार्च 2008

सं. एफ. 15/28/2004/जी.एन.-6095/ए.एन.-1। श्री एस. पी. वर्मा को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सभापति (श्री बालासाहेब विखे पाटील) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 1 फरवरी, 2008 से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एस. पी. वर्मा को वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर और रक्षा संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त

3. उनका पदनाम रक्षा संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

अभिजीत कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. एफ. 15/26/2004/जी एन-6094/ए एन-1 कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सभापति (डा० सत्यनारायण जटिया) के वैयक्तिक स्टाफ में बरिष्ठ निजी सचिव श्री बाबू प्रवेश की सेवाएं 22 मई, 2008 से समाप्त की जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 सितम्बर 2008

सं. एफ. 15/24/2004/जी एन-6099/ए एन-1 गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रोटोकॉल अधिकारी, श्री एम. एन. जोशी, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तार आधार पर लोक सभा में विपक्ष के नेता (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) के सहायक निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 1 सितम्बर, 2008 के पूर्वानुमति से इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अक्टूबर 2008

सं. ए-19014/29/2006-प्रशा.-I--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-10-2008 के आदेश सं. 5/12/2008-ई ओ (एस.एस. I) के द्वारा सूचित मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के आदेशों के अनुसरण में श्रीमती लालिता कुमार, भा.प्र.से. (तमिलनाडु: 74) ने दिनांक 20-10-2008 की पूर्वानुमति से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के वेतन में प्रमुख सलाहकार के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अरविन्द कुमार, नियुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2008

सं. ए-32013/7/2003-प्रशा. I (वि.वि.):—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर, राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में अधीक्षक (अनुवाद) के पद पर कार्यरत श्री दिनेश टंडन को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में रुपए 15600-39100 के वेतन बैंड + रुपए 6600/- के ग्रेड वेतन में सहायक विधायी परामर्शी (हिंदी) के पद पर दिनांक 08 अक्टूबर, 2008 की पूर्वानुमति से और अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एल.आर.राव, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर, 2008

सं. ए-32014/1/2008-प्रशा. I (वि.वि.):—विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिश पर, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के सचिव, राजभाषा खंड में ज्येष्ठ अनुवादक श्री पुण्डरीक शर्मा को, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड में, दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 की पूर्वानुमति से तथा अगले आदेशों तक, अधीक्षक (अनुवाद) के पद पर, रुपए 9300 से 34800 के पे बैंड-2 + रुपए 4600 के ग्रेड पे में, नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एल.आर.राव, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2008

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा. I (वि.वि.):—राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर रुपए 15600-39100 के वेतन बैंड रुपए 7600 के ग्रेड वेतन में दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 की पूर्वानुमति से 90 दिन की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं—

1. सुश्री वीना कोटावले
2. रामीसेट्टी श्रीनिवास
3. श्री रवीन्द्र कुमार परटनायक
4. श्री दिवाकर सिंह

2. यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारियों को उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में बरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एल.आर.राव, उप सचिव,

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21, अक्टूबर, 2008

सं. 1-11014/3/2008-आई पी एस-IV--केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा केरल और मध्य प्रदेश सरकारों की सहमति से, श्री आकाश जिन्दल, आई पी एस (केरल:2006) का विवाह श्रीमती रुचिका जैन, आई पी एस (मध्य प्रदेश: 2007) के साथ हो जाने के आधार पर उन्हें केरल से मध्य प्रदेश के आई पी एस संवर्ग में स्थानान्तरित करती है।

राजेंद्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अक्टूबर, 2008

संख्या-23012/07/2008-अ.भा.से.-II सिविल सेवा परीक्षा, 1998 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त श्री एन. प्रभाकरम्मा,



## विनिवेश विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

सं 9/8/2008-प्रशासन/स्थापना: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/5/2008-सीएस.-I के साथ पठित व्यय विभाग के दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-32014/1/2007-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, नियमित सहायक श्री कृष्ण लाल को 23 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से पीबी-2, 9300-34800 + ग्रेड पे 4800 रुपये के वेतनमान में विनिवेश विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में श्री कृष्ण लाल की तदर्थ पदोन्नति प्रारम्भ में 31.12.2008 तक अथवा आगामी आदेश होने तक और निम्नलिखित निर्बंधन और शर्तों के अधीन होगी:--

(क) अल्पकालिक व्यवस्था होने के कारण इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा;

(ख) यह तदर्थ नियुक्ति, वरीयता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अधिकारी के उपलब्ध हो जाने या आगामी आदेश होने तक जारी रहेगी।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

वर्णिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)  
आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2008

सं ए-38013/2/2008-आस(प्रशा) I--राष्ट्रपति आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत श्री आर. विजयराघवन को उनके अधिवर्धिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2008 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

रंजन मुखर्जी, उप निदेशक (प्रशा)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

सं 9/2008(.) फांर्स-ए-46011/11/2007-स्था.(.)--राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, नियमित आधार पर सहायक निदेशक ग्रेड-II (गैर-तकनीकी) पद धारित निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 14 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय मुम्बई में 8000-13500/- रुपये (संशोधन-पूर्व) के वेतनमान में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक ग्रेड I (गैर-तकनीकी) (समूह क, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

1. श्री राजेन्द्र कुमार
2. श्री एम. ए. खान

उपयुक्त अधिकारी 14.08.2008 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है, परिवीक्षा पर रहेंगे।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008

सं ए-32013/1/2007-प्रशासन इस विभाग की दिनांक 16 अप्रैल, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में नियमित सहायक निदेशक श्री प्रमोद कुमार की उप निदेशक के पद पर (तदर्थ) नियुक्ति की अवधि को दिनांक 15.08.2008 (पूर्वा) से अगले छः माह तक अथवा प्रसंगाधीन पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो पहले हो, बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

ज्योति माथुर, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008

सं ए-19011/04/2008 - प्रशा- -राष्ट्रपति, श्री अशोक सिन्हा, भा-प्र-से (महाराष्ट्र: 75) को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री अशोक सिन्हा भा-प्र-से (महाराष्ट्र: 75) ने 16.10.2008 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. नन्दा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 2008

सं ए-32011/01/05 - प्रशा(ए)(खण्ड II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.08.08 के कार्यालय ज्ञापन सं 6/3/2006 - सीएस-I के द्वारा वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत वर्ष 2004 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड को चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए नामांकन होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति - निम्नलिखित नियमित सहायकों (जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं) को 6500 - 10500 रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में, तत्काल प्रभाव से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	एस सी एस एल संख्या
	सबश्री:	
1.	के.के. अरोड़ा	222 (1990)
2.	श्रीमती मधु भाला मेहरोत्रा	419 (1990)
3.	एम.पी. चौधरी	420 (1990)
4.	आर.एन. शर्मा (डोबोटी)	423 (1990)
5.	रमजी लाल गुप्ता	423 (1990)
6.	जी.ए. पगटे	262 (1991)

2. उपरोक्त अधिकारियों को नियुक्त श्री कैलाश चन्द बनन भारत सच के द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर कोर्ट केस सं. 13245-60/2008 तथा श्री सौरभ सिन्हा बनाम भारत सच के द्वारा कोर्ट, दिल्ली में दायर कोर्ट केस सं. ओ.ए. 1083/2007 तथा एम.ए.सं. 1171/2007 में लम्बित है, के फैसले पर निर्भर होगी।

कृपा दत्त, अवर सचिव

सं.ए - 32011-01-05 प्रकाश (ए) (खण्ड II) - कार्तिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.08.08 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5625/2008 - भौ-एस-1 के द्वारा विधिगत कोर्ट के अंतर्गत वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने तथा विज्ञान और औद्योगिक मंत्रालय के लिए नामांकन होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति - निम्नलिखित नियमित सहायकों ( जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप के कार्य कर रहे हैं) को 6500 - 10500 रुपये के वेतनमान में विज्ञान और औद्योगिक मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संगठन में अनुभाग अधिकारियों के रूप में, तत्काल प्रभाव से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	एस सी एस एल संख्या
	सबश्री:	
1.	एस. एस. शर्मा	170 (1989)
2.	सुरेश प्रकाश	496 (1989)
3.	डी.क. रामचन्दी	497 (1989)
4.	सी.टी. धामर	890 (1989)
5.	एस.के. पैरेला (डोबोटी)	944 (1989)
6.	एस.के. गणेशधरी	945 (1989)
7.	आर.के. रमणन	948 (1989)
8.	प्रवीण शर्मा	981 (1989)
9.	विष्णु पी. करुणानिधि (अ.ज.ा.) (डोबोटी/आईआर)	1041 (1990)
10.	प्रकाश प्रकाश (अ.ज.ा.) (डोबोटी)	511 (1991)
11.	महिलास धितन (अ.ज.ा.) (डोबोटी)	152 (1991)
12.	एस.जी. निजली (अ.ज.ा.)	222 (1991)

2. उपरोक्त अधिकारियों को नियुक्त श्री कैलाश चन्द बनन भारत सच के द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर कोर्ट केस सं. 13245-60/2008

तथा श्री सौरभ सिन्हा बनाम भारत सच के द्वारा कोर्ट, दिल्ली में दायर कोर्ट केस सं. ओ.ए. -1083/2007 तथा एम.ए.सं. 1171/2007 में लम्बित है, के फैसले पर निर्भर होगी।

कृपा दत्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

सं. एस.एम-01/03-2008 राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में नान फंक्शनल सेकण्ड ग्रेड अधीक्षक सर्वेक्षक/उप निदेशक के पद पर कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को उरी विभाग में निदेशक के उच्चतर वेतनमान 14,300-400-18,300 रुपये में उनके नाम के सामने दो गई लिख में आगे आदेशों तक सहर्ष स्थापित करने हैं:-

क.सं.	अधिकारी का नाम	स्थापन की तिथि
1.	श्री राजेन्द्र कुमार मोगा (अनु. वर्ग-3)	12.07.2008
2.	श्री टी. सत्यन कुमार (अनु. वर्ग-3)	12.07.2008 (अपरादन)

श्री.के.मधु, डैस्क अधिकारी

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली दिनांक 3 अक्टूबर 2008

सं. ए. 1202301/2008 स्थापन-राष्ट्रपति श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, जो केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान सेवा अन्तःस्थापन मंत्रालय में विधि अनुसंधान अधिकारी है को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 12000-375-16500 रु (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में 30 सितम्बर, 2008 के पत्राह्वन से, दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपना आदेश होने तक इनमें से जो दो पहले हों, वैज्ञानिक 'डी' के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में प्रतिनिधित्व क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर तथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 2129/91-स्था (वेतन II) दिनांक 5 जनवरी, 1994, में दिए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

एस.के. कालिदा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, वृत्तकी सिद्ध तथा होम्योपैथी  
(आयुष) विभाग

नई दिल्ली दिनांक 7 अक्टूबर 2008

सं. ए. 120224/08 आश्रित (स्था. II) पार्ट - समयपूर्व प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप, श्री शिव प्रसाद भा.प्र.सं. (आरखंड: 76) संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, वृत्तकी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, को 10 अक्टूबर, 2008 के अपराहन से आयुष विभाग में उनके वर्तमान से कार्यभार किये जाता है।

श्री शिव बसंत, भा०प्र०से० (झारखंड: 76), अपनी अगली तैनाती हेतु मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची को रिपोर्ट करेंगे।

डॉ.एस. भाटिया, उप सचिव

#### कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

सं.ए-19012/13/2008-आ.प्र.—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आई ई एस) के कनिष्ठ समथमान जूनियर टाईम स्केल (जेटीएस) के एक अधिकारी श्री मानिक चन्द्र षण्डित को अर्ध एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 01 सितम्बर, 2008 के पूर्वान्द से 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ.के. राय, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2008

सं. 3-5/2007-मात्स्यिकी (प्रशासन)—राष्ट्रपति, श्री के०सी० उदयप्रकाशन को केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में 8,000-13500/- रुपये के वेतनमान में 15.09.2008 (अपराह्न) से वरिष्ठ अनुदेशक (प्रचालन) (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करती हैं। वे इस तारीख से दो वर्ष के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

#### ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

सं. 12021/1/1999-स्था० II.—राष्ट्रपति, श्री एस. के. निरुचल, को दिनांक 12.08.2008 (पूर्वान्द) से 12000-16500 रु० के वेतनमान में इस मंत्रालय के सी.एस.एस.एस. केडर में नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

#### युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 2008

सं. 32014/2/08-प्रशा०—राष्ट्रपति युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री देवानंद पी० वेडे को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 25 अगस्त, 2008 से 65000-200-10,500/- रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री देवानंद पी० वेडे को एससीएसएल सं० 194 पर वरिष्ठता कोटा के सम्मुख वर्ष 2004 के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किया गया है।

श्री वेडे की नियुक्ति उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित भारत संघ के विरुद्ध कैलाश चंद्र द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस नं० 13245-60/2005 तथा कैट, दिल्ली में लंबित भारतीय संघ के विरुद्ध सौरांशु सिन्हा द्वारा दायर किए गए केस नं० ओ ए 1083/2007 तथा एम ए नं० 1171/2007 के निर्णय के अधीन होगी। इसके अतिरिक्त, श्री वेडे को प्रदान किए गए वित्तीय लाभ, यदि कोई है, जैसे गैर कार्यात्मक वेतनमान, भी उपरोक्त दो कोर्ट केसों के निर्णय के अधीन होंगे।

एच०एम० कुंडलिया, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर, 2008

फा० सं० 32014/2/08-प्रशा०—राष्ट्रपति युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 25 अगस्त, 2008 से 65000-200-10,500/रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं—

1. श्री आर०के० गोयल
2. श्री पी० भट्टाचार्य
3. श्रीमती नीलम रामदेव
4. श्री बी.एस. कक्कड़
5. श्री के.के. पाल
6. श्री चंपत सिंह

उपर्युक्त अधिकारियों को एससीएसएल सं० 391, 427, 428, 458, 480 तथा 782 पर वरिष्ठता कोटा के सम्मुख वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित भारत संघ के विरुद्ध कैलाश चंद्र द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस नं० 13245-60/2005 तथा कैट, दिल्ली में लंबित भारतीय संघ के विरुद्ध सौरांशु सिन्हा द्वारा दायर किए गए केस नं० ओ ए 1083/2007 तथा एम ए नं० 1171/2007 के निर्णय के अधीन होगी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिकारियों को प्रदान किए गए वित्तीय लाभ, यदि कोई है, जैसे गैर कार्यात्मक वेतनमान, भी उपरोक्त दो कोर्ट केसों के निर्णय के अधीन होंगे।

एच०एम० कुंडलिया, अवर सचिव

#### जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2008

संख्या 12034/2/2004 स्थापना: राष्ट्रपति इस मंत्रालय कि दिनांक 28.02.2007 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, जनजातीय कार्य (श्री पी. आर. किंडिया) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में श्री राजीव माथुर आईओएफएस(90) की कार्योर्विधि को 24 सितम्बर, 2008 से एक वर्ष हेतु अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बढाते हैं।

अमित कुमार साहा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 03 अक्टूबर 2008

संख्या 12034/1/2004-स्थापना—राष्ट्रपति माननीय जनमतदायक कार्य राज्य मंत्री (डा० रामेश्वर झाँव) के निजी सचिव को हैसियत में निदेशक कि स्तर पर दिनांक 08.09.2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि पर मंत्री के निजी सचिव की हैसियत में कार्य न करने का अगले आदेशों तक जो भी पहले हो श्रोमती अन्नु जे. सिंह आईआरएस (आइटी : 35) को नियुक्त करते हैं।

असित कुमार साहा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(इ.क. विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 06 अक्टूबर 2008

संख्या पीएफ 401/प्रशासन—राष्ट्रपति इ.क. विभाग के अनुभाग अधिकारी, श्री जेसी फामजी द्वारा दिए गए नोटिस को स्वीकार करते हैं जिसमें उन्होंने सरकारी सेवा से स्वीच्छक सेवानिवृत्ति मंगी है। तदनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमवली, 1972 के नियम 48 क के अंतर्गत दिनांक 13.11.2008 को पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

भागवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2008

स.ए. 12022/1/2008-ई-1—राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के नियुक्त मंत्रि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.8.2008 के आदेश संख्या 1.7/2008 ईओ (एन एन-1) के अनुसरण में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव श्री पी के त्रिपाठी, भा.प्र.से. (जम्मु और कश्मीर : 37, को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में आर्थिक स्थानांतरण अधार पर 18,400-22,400 स्तर के वेतनमान में दिनांक 03.09.2008 (पूर्वाह्न) से उनको 5 वर्ष के केंद्रीय प्रतिनिधित्व के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 03.10.2010 तक अधवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव (पी पी पी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुषीमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

सं.ए.-38014/2/2008-स्था-1—श्री सी. हरिनारायणन, जे.पेंशन परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में आर्थिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, सरकारी सेवा में नियुक्ति पर, दिनांक 30-9-2008 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुषीमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

सं.ए.-12025/47/2008-ई-11 (बी)—राष्ट्रपति, श्री मुकुन्दर सिंह, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 75) को सचिव के रैंक और वेतनमानों में

दिनांक 01.10.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. एन. राव, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2008

सं. 26/08 फा.सं. 2/2/2008-प्रशा-11—श्री इन्द्र चन्द्र प्रसाद केशरी, आई-एफएस (मंत्र-1958) के मूल संकाय, मध्य प्रदेश की सरकार ने उनकी केंद्रीय प्रतिनिधित्व की 29.3.2013 तक जारी रखने का अनुमोदन अपने दिनांक 03.04.2008 के पत्र सं.ई-1/83/2008/5/1 के द्वारा संप्रेषित कर दिया है। तदनुसार, दिनांक 17.3.2008 की अधिसूचना सं. 08/08 (फा.सं. 2/2/2008-प्रशा-11) के अनुसार विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर श्री केशरी को नियुक्ति को 29.03.2013 तक बढ़ाया जाता है।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2008

सं. 26/2008-मि.सं. 35012/1/2008-प्रशा-एक—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह क) सेवा के महायक विदेशक ग्रेड एक/ सहायक कार्यकारी अधिकारी के ग्रेड में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारियों का नाम	पद ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री नरेश कुमार	06/10/2008 (पूर्वाह्न)
2.	श्री मेक. रामकृष्ण	14/10/2008 (पूर्वाह्न)

2. ये अधिकार पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवोक्षाधीन रहेंगे।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

सं. 7/9/2007-संजीवज्योति—राष्ट्रपति, श्री राजन सिंह, सहायक जल मौसम वैज्ञानिक को 18.06.2008 के अपराह्न से 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में प्रोन्नति द्वारा केंद्रीय भूमि जल बोर्ड में जल मौसम वैज्ञानिक (एससीसीबी : समूह 'क' पद) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम.एन. सुकुमारन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

सं. 7/6/2008 संजीवज्योति—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक कार्यपालक अभियंताओं को प्रत्येक के सामने दशंशी गई तारीख से केंद्रीय भूमि जल बोर्ड में 10000-335-13500/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति के आधार पर कार्यपालक अभियंता के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारियों का नाम (संकाय)	पदोन्नति की तारीख
1.	सी.एल.वसन्त	9.5.2008
2.	एस.के. मनमोहन	30.4.2008
3.	के.पी.सी. राव	30.4.2008
4.	शोभा राम	16.5.2008

एम.एन. सुकुमारन, अवर सचिव



सं 7/1/2008-सोजीडब्ल्यूबी-राष्ट्रपति, श्री मूल चन्द वर्मा प्रशासनिक अधिकारी भूमि जल बोर्ड को 18.07.2008 (पूर्वाह्न) से प्रनति के आधार पर 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (समूह क) के बतौर नियुक्त करते हैं।

एम०एन० सुकुमारन, अवर सचिव,

सं 7/2/2008-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, निम्नलिखित 3 (तीन) अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाये गई तारीख से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पदोन्नति द्वारा 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ख' के ग्रेड में कनिष्ठ जल भूवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र०सं०	अधिकारियों का नाम	पद ग्रहण करने की तारीख
(सर्व/श्री)		
1.	जी० डी० बरथवाल	06/06/2008 (पूर्वाह्न)
2.	जे० आर० शर्मा	11/06/2008 (पूर्वाह्न)
3.	मुलाब प्रसाद	12/06/2008 (पूर्वाह्न)

वे अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परिबीक्षा पर रहेंगे और यह सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उनके विवेकानुसार बढ़ायी जा सकती है।

एम०एन० सुकुमारन, अवर सचिव

सं 7/3/2008-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, श्रीमती रूप रेखा सहायक केमिस्ट को 1.07.2008 पूर्वाह्न से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पदोन्नति द्वारा 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ख' के ग्रेड में केमिस्ट के रूप में नियुक्त करते हैं।

वह अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परिबीक्षा पर रहेंगे और यह सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उनके विवेकानुसार बढ़ायी जा सकती है।

एम०एन० सुकुमारन, अवर सचिव

सं 7/16/2008-सोजीडब्ल्यूबी-I-इस मंत्रालय के दिनांक 3 मार्च, 2008 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में वैज्ञानिक 'ख' के ग्रेड (8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान) में निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से प्रलेक्सिबल कंपलिमेंटिंग स्कीम (एफसीएस) के अंतर्गत 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ग' के ग्रेड में नियुक्ति की जाती है:—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	विषय	वैज्ञानिक 'ग' के रूप में पद-भार ग्रहण करने की तारीख
(सर्व/श्री)			
(i)	कुलदीप कुमार	भूभौतिकी	05.03.2008
(ii)	वी०जे० मेलाच्छेटन	भूभौतिकी	05.03.2008
(iii)	एस०के० मोहिनुद्दीन	जल भूविज्ञान	05.03.2008
(iv)	अशोक कुमार	जल भूविज्ञान	05.03.2008

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	विषय	वैज्ञानिक 'ग' के रूप में पद-भार ग्रहण करने की तारीख
(सर्व/श्री)			
(v)	कू० श्रीवास्तव	जल भूविज्ञान	17.04.2008
(vi)	अनुराग खन्ना	जल भूविज्ञान	21.05.2008
(vii)	डा०ए० अशोकन	जल भूविज्ञान	24.03.2008
(viii)	पी०आर० गुप्ते	जल भूविज्ञान	05.03.2008
(ix)	कु०एस० बंधोपाध्याय	जल भूविज्ञान	21.05.2008
(x)	बी०एन० गोमई	जल भूविज्ञान	21.05.2008
(xi)	आर०के० गुहा	जल भूविज्ञान	05.03.2008
(xii)	सुनील कुमार	जल भूविज्ञान	16.04.2008
(xiii)	एन०सी० नायक	जल भूविज्ञान	05.03.2008
(xiv)	श्रीमती अनिता श्याम	जल भूविज्ञान	05.03.2008
(xv)	अविनाश कांत	जल भूविज्ञान	05.03.2008
(xvi)	दिनेश तिवारी	जल भूविज्ञान	24.03.2008

2. एफसीएस के अंतर्गत उपरोक्त आदेशित प्रोनतियाँ "स्वाम्यधने" हैं और संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत तौर पर संबंधित हैं।

3. ये प्रोनतियाँ आगे देश में किसी न्यायालय में इस विषय पर चल रहे/लंबित किसी न्यायालयी मामले के परिणामों पर आधारित हैं।

एम०एन० सुकुमारन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

सं 15/2008-फाईल संख्या-3/4/2007-स्थापना एक--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल आयोग (समूह 'ख') सेवा के निम्नलिखित अतिरिक्त सहायक निदेशकों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से, रुपये 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में नियमित रूप से पदोन्नति पर केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त करते हैं।

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
(सर्व/श्री)		
1.	श्री बी०एन० परुस्थी	30.04.2008 (पूर्वाह्न)
2.	पी०के० सेन	30.04.2008 (पूर्वाह्न)
3.	सी मोहन्ती	21.07.2008 (पूर्वाह्न)
4.	अरिफुल्ला बेग	30.04.2008 (पूर्वाह्न)
5.	पी०के० पटनायक	08.05.2008 (पूर्वाह्न)
6.	मोहम्मद सीराज अहमद	30.04.2008 (पूर्वाह्न)
7.	सुब्रता सरकार	30.04.2008 (पूर्वाह्न)
8.	हरदेश कुमार	30.04.2008 (पूर्वाह्न)
9.	आर० एस० तिवारी	30.04.2008 (पूर्वाह्न)
10.	राजेंद्र कुमार मिश्रा	15.05.2008 (पूर्वाह्न)
11.	अशोक कुमार वी०	30.04.2008 (पूर्वाह्न)
12.	डी आर हवानुर	30.04.2008 (पूर्वाह्न)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
	(सर्वे श्री)	
13.	एल. कादन्दास्वामी	30.04.2008 (पूर्वार्ध)
14.	श्रीमती शोभा पिल्लवई	30.04.2008 (पूर्वार्ध)
15.	गुरुंजय गोरेना	30.04.2008 (पूर्वार्ध)
16.	राजेश गुप्ता	30.04.2008 (पूर्वार्ध)
17.	एम. जेम्स जयल	05.05.2008 (पूर्वार्ध)
18.	नारसिंह इक्काल अल्लु	01.05.2008 (पूर्वार्ध)

2. उपरोक्त अधिकारियों कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक संधी जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अपर सचिव

### शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2008

सं. ए-110194/2008, प्रशा. I - कार्यात्मक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के क.आ. संख्या 5/18/2005-सोएस-II के तहत इस मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों सेवा ग्रेड की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की वर्ग 2004 को चयन सूची में श्री एम. डी. कुट्टी का नाम शामिल किए जाने पर जो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं को इस मंत्रालय के केंद्र में दिनांक 12.08.2008 (पूर्वार्ध) से वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

यू. विश्वनाथम, अपर सचिव

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 13th March 2008

No. F.15/28/2004/GN-6035/AN-I.—Shri S.P. Verma is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on the personal staff of Chairman, Committee on Defence (Shri Balasaheb Vikhe Patil) with effect from 1st February, 2008 until further orders.

2. The appointment of Shri S.P. Verma to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Defence.

3. He will designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Defence.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. F.15/26/2004/GN-6034/AN-I.—The services of Shri Harpreet Singh, Programme Executive, All India Radio, Jalandhar who was appointed as Assistant Private Secretary to Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Shri Charanjit Singh Atwal) on deputation/co-terminus basis are placed at the disposal of Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University (GADVASU), Ludhiana on deputation basis with effect from the afternoon of 13th March 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 16th April 2008

No. F.15/26/2004/GN-6044/AN-I.—The services of Shri Sunil Kumar Chadda, Additional Private Secretary to Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Shri Charanjit Singh Atwal) are terminated with effect from the afternoon of 9th April, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 4th June 2008

No. F.15/28/2004/GN-6052/AN-I.—The services of Shri R. Kumar, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Coal and Steel (Dr. Satyanarayan Jatiya) are terminated with effect from the afternoon of 21st May, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. F.15/28/2004/GN-6051/AN-I.—Shri Munshi Lal Kashyap is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on the personal staff of Chairman, Committee on Rural development (Shri Kalyan Singh) with effect from 28th May, until further orders.

2. The appointment of Shri Munshi Lal Kashyap to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and

during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Rural Development.

3. He will designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Rural Development.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. F.15/28/2004/GN-6050/AN-I.—The services of Shri Alok Kumar Srivastava, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Rural Development (Shri Kalyan Singh) are terminated with effect from the afternoon of 27th May, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 10th June 2008

No. F.15/28/2004/GN-6054/AN-I.—Shri Babu Pravesh is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on the personal staff of Chairman, Committee on Coal and Steel (Dr. Satyanarayan Jatiya) with effect from 22nd May, 2008 until further orders.

2. The appointment of Shri Babu Pravesh to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Coal and Steel.

3. He will designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Coal and Steel.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 08th July 2008

No. F.15/24/2004/GN-6072/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Siddharth Naithani as Assistant Private Secretary to Leader of Opposition, Lok Sabha (Shri L.K. Advani) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on co-terminus basis with effect from 9th June, 2008 until further orders.

2. The appointment of Shri Siddharth Naithani on the personal staff of Leader of Opposition, Lok Sabha (Shri L.K. Advani) will be on tenure basis and during the pleasure of the present Leader of Opposition, Lok Sabha.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 22nd July 2008

No. F.15/28/2004/GN-6084/AN-I.—Shri P.K. Bhandari is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of

Rs. 10000-325-15200 on the personal staff of Chairman, Committee on Defence (Shri Balasahel Vekhe Patil) with effect from 1st June, 2008 until further orders.

2. The appointment of Shri. P.K. Bhandari to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Defence.

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Defence.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. F-15/28/2004 GN-6083-AN-I. The services of Shri S.P. Verma, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Defence (Shri Balasahel Vekhe Patil) are terminated with effect from the afternoon of 21st May, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 30th July, 2008

No. F-15/26/2004 GN-6086-AN-I. The Speaker is pleased to appoint Shri. Rajinder Kumar Kashyap, (PPS-1989), Director (FS), Department of Posts, Ministry of Communications and IT, as OSD on the personal staff of Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Shri Charanjit Singh Arora) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 (personally on deputation and co-terminus basis with effect from 29th July, 2008 and further orders.

2. The appointment of Shri Rajinder Kumar Kashyap on the personal staff of Hon'ble Deputy Speaker Lok Sabha (Shri Charanjit Singh Arora) will be on tenure basis and during the pleasure of the present Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 21st August 2008

No. F-15/28/2004 GN-6095-AN-I. Shri. Dinesh is appointed as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on the personal staff of Chairman, Committee on Coal and Steel (Dr. Satyanarayan Jaiswal) with effect from 23rd May, 2008 until further orders.

2. The appointment of Shri Dinesh to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Coal and Steel.

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Coal and Steel.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. F-15/28/2004 GN-6094-AN-I. The services of Shri Babu Praveesh, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Coal and Steel (Dr. Satyanarayan Jaiswal) are terminated with effect from 22nd May, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 1st September 2008

No. F-15/24/2004 GN-6099/AN-I. Shri S.N. Joshi, Protocol Officer, Ministry of Home Affairs, New Delhi who is presently working as Assistant Private Secretary to Leader of Opposition, Lok Sabha (Shri J. K. Advani) on deputation and co-terminus basis is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 1st September, 2008 and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department i.e. Ministry of Home Affairs, New Delhi.

ABHIJIT KUMAR, Director

#### MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, 10001, the 23rd October 2008

No. A-19014/29/2006-Ad-1. In pursuance of the orders of the Appointments Committee of the Cabinet communicated vide Department of Personnel & Training Order No. 5/12/2008-FO (SM.I) dated 17.10.2008, Smt. Lalitina Kumar IAS (TN: 74) has assumed the charge of the post of Principal Adviser in the pay of Secretary in Ministry of Statistics and Programme Implementation with effect from the forenoon of 20.10.2008.

ARVIND KUMAR, Joint Secy.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi-110001, the 10th October 2008

No. A-32013/7/2003-Admn. I (L.O.). On recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Dinesh Landon, Superintendent (Translation) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice as Assistant Legislative Counsel (Hindi) in the Pay Band of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/-, in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 8th October, 2008 and until further orders.

L. R. RAO, Deputy Secy.

The 21st October, 2008

No. A-32014/1/2008-Admn. I (L.O.). On the recommendation of the Department Promotion Committee, the Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is pleased to appoint Shri Pankaj Sharma, Senior

Translator in the Official Languages Wing to the post of Superintendent (Translation) in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 21st October, and until further orders.

L. R. RAO, Deputy Secy.

No. A-12025/1/2007-Admn. I (L.D.)—The President is pleased to appoint the following Assistant Legislative Counsels in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the posts of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600, in the said Department of Ministry of Law and Justice on *ad hoc* basis for a period of 90 days with effect from the forenoon of 21st October, 2008 and until further orders:—

1. Ms. Veena Kothavale
2. Shri Ramisetty Sreenivas
3. Shri Rabindra Kumar Pattanayak
4. Shri Diwakar Singh

2. This *ad-hoc* appointment will not bestow on the above mentioned officers any claim for regular appointments whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the *ad hoc* services rendered by them will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

L. R. RAO, Deputy Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 21st October 2008

No. I-11014/3/2008-IPS-IV. In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Kerala and Madhya Pradesh, the Central Government hereby transfer Shri Akash Jindal, IPS (KL : 2006), from Kerala to the IPS cadre of Madhya Pradesh on the ground of his marriage with Ms. Ruchika Jain, IPS (MP : 2007).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110001, the 16th October 2008

No. 23012/07/2008-AIS-III.—Shri N. Prabhakarappa, IAS (KN: 99), appointed to the Indian Administrative Service on

the basis of the Civil Services Examination held in 1998 and borne on the cadre of Karnataka, has been permitted to change his name from "N. Prabhakarappa" to "N. Prabhakar". He will accordingly be recognised as Shri N. Prabhakar for all official purposes.

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 17th October 2008

No. 13017/24/2004-AIS-I(Pt.)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative (Cadre) Rules, 1954, the Central Government hereby accords approval for extension of inter-cadre deputation of Shri M.G.V.K. Bhanu, IAS (AM-85) from Assam-Meghalaya cadre to Andhra Pradesh cadre for a period of one year beyond 2.8.2008.

Y. KUMAR, Deputy Secretary

#### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 23rd October 2008

#### INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No.52 of 2008 F. No. A-38012/36/2008-Ad. II—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri M.M. Vasava, Assistant Commissioner of Customs, Jodhpur with effect from 18.11.2008 (AN) under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 20th October 2008

No. A-22011/2/2008-Admn. II.—In pursuance of O.M. No. 32014/2007-CAS dated 17.09.2008 and O.M. of even number dated 26.9.2008 of Department of Expenditure (CAS), the President is pleased to appoint the following Assistants of CSS of Finance Cadre, as Section Officers in the pay scale of Rs. 9300-34,800-Rs. 4,800/- (Grade pay) in PB-2 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from the date as indicated against each official, purely on *ad-hoc* basis, upto 31.12.2008 or till regular incumbents become available, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of the Officials	Date of their appointment as SO
1.	Shri Ramesh Prasad*	30.9.2008(FN)
2.	Smt. Manju Mathur	26.09.2008(FN)

(\*) Transferred from Department of Financial Services on promotion.

2. The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions:-

- Ad-hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade.
- Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre allotted to them by DOP.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 15th October 2008

No. A-32014/1/2006-Ad.I. The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistant of CSSS cadre of the Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Private Secretary in the pay band-2 of Rs. 9300-34800-4800-5400 Grade Pay, par. 6 on ad-hoc basis for the period mentioned against their names or till the select list persons become available, whichever is earlier:-

S.No.	Name	Period of Promotion
1.	Smt. Kusum Jain	01.07.2008 to 31.12.2008
2.	Smt. Manjit Kaur	-do-
3.	Smt. R.R. S. Rawat	-do-
4.	Smt. Madhu Gupta	-do-
5.	Shri Krishan Punjwari	-do-
6.	Shri V.K. Jain	-do-
7.	Shri Ramesh Kumar Khattar	-do-
8.	Shri Satish Kumar	-do-
9.	Shri Anil Kumar Akhria	-do-
10.	Shri R.C. Malhotra	-do-
11.	Shri Ravi Shankar	-do-
12.	Smt. Raj Kanta Khanna	-do-
13.	Smt. Avon Narain	-do-
14.	Shri V.S. S. Narasimham	-do-
15.	Shri Jahan Manjhi	-do-

2. The ad-hoc appointment of the above named officials shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade "A&B" (merged) of CSSS. The ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

MEETALU GHOSH, Under Secretary

#### DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 23rd October 2008.

No. 9/8/2008-Adm. Estt. -In pursuance of O.M. No. A-32014/1/2007-C.S. dated 17th September, 2008 of the Department of Expenditure and read with Department of Personnel & Training's O.M. No. 7/5/2008-CS-I dated 14-08/2008, the President is pleased to appoint Shri Krishan Lal, a regular Assistant as Section Officer (ad-hoc) in the Department of Disinvestment in the scale of pay PB-2 Rs. 9300-34800+Grade Pay Rs. 4800/- with effect from the forenoon of 23rd October, 2008.

2. The ad-hoc promotion of Shri Krishan Lal, as Section Officer would initially be up to 31.12.2008 or until further orders and subject to the following terms and conditions:-

- Ad-hoc appointment being a stop-gap arrangement, shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade.
- Ad-hoc arrangement will continue till regular candidate in the Section Officer grade is available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further order.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 30th September 2008

No. A-33013/2/2008-EC Ad. (Adm.I) The President is pleased to permit Smt R. Vijaya Raghavan, Assistant Director in the Office of the Economic Adviser to retire from the Government Service from the afternoon of 30th September, 2008 on his attaining the age of superannuation.

RANJAN MUKHERJEE, Deputy Director (Adm.)

#### MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 27th October 2008

No. 19/2008-CEP No. A-4601/1/1/2007-Estt. (Adm.) -On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee and Union Public Service Commission,

holding the posts of Assistant Director Gr.II (Non-Technical) on regular basis, to the post of Assistant Director Gr.I (Non-Technical) (Gr. A Gazetted), in the pay scale of Rs. 8000- 13500/- (pre-revised), on promotion basis, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 14th August, 2008 (F/N) (-)

1. Shri Rajendra Kumar

2. Shri M.A. Khan

The above officers will be on probation for a period of two years from 14.08.2008 (F/N) which is liable to be extended at the discretion of the competent authority (-)

BALBIR SINGH, Under Secretary

#### MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 13th October 2008

No. A-32013/1/2007- Admn.—In continuation of this Department's notification of even number dated 16th April, 2008, the President is pleased to extend the tenure of Dr. Pramod Kumar, a regular Assistant Director, DPE as Deputy Director (ad-hoc) in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for a further period of six months w.e.f. 15th August, 2008 (FN) or until the post in question is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

JYOTI MATHUR, Under Secretary

New Delhi-110049, the 17th October 2008

No. A-19011/04/2008-Admn.:—The President is pleased to appoint Shri. Ashok Sinha, IAS (MH:75), as Secretary, Ministry of Food Processing Industries.

Shri Ashok Sinha, IAS (MH:75) has assumed charge of the post of Secretary in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 16.10.2008 (F/N).

S.K. NANDA, Under Secretary

#### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 10th September 2008

No. A-32011/01/05-Admn.(A)(Vol.II):—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2004 against Seniority Quota and nomination to Ministry of Science & Technology vide DP&T's O.M.No. 6/3/2006- CS.I(S) dated 12.08.08, the President is

pleased to appoint the following regular Assistants (presently working as Section Officer on ad-hoc basis) as Section Officers in the Scale of pay of Rs. 6500 -10500 in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology with immediate effect and until further orders:-

S.No.	Name of the Officer	SCSL No.
	(S/Shri)	
1	K.K. Arora	222(1990)
2	Mrs. Madhu Bala Mehrotra	419(1990)
3	S.P. Choudhary	420(1990)
4	R.N. Dhanjal (DBT)	422(1990)
5	Ramji Lal Gupta	423(1990)
6	G.D. Parate (ST)	262(1994)

2. The appointment of above officers shall be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. UOI Pending in High Court, Delhi and Case No. 0A-1083/2007 & MA No. 1171/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi.

KRISHNA DUTT, Under Secretary

No.A-32011/01/05-Admn.(A)(Vol.II):—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003 against Seniority Quota and nomination to Ministry of Science & Technology vide DP&T's O.M.No. 5/25/2004- CS.I(S) dated 12.08.08, the President is pleased to appoint the following regular Assistants (presently working as Section Officer on ad-hoc basis) as Section Officers in the Scale of pay of Rs. 6500 -10500 in the CSS Cadre of Ministry of Science & Technology with immediate effect and until further orders:-

S.No.	Name of the Officer	SCSL No.
	(S/Shri)	
1	S.S. Sharma	470(1989)
2	Surinder Prakash	496(1989)
3	D.K. Satyawali	497(1989)
4	C.T. Thomas	890(1989)
5	S.K. Gairola (DBT)	914(1989)
6	S.K. Roy Chowdhary	917(1989)
7	R.V. Ramanan	918(1989)
8	Praveen Sharma	128(1990)
9	Bishnu P. Kirtania (SC) (DSIR)	194(1990)
10	Prakash Ekka (ST) (DBT)	54(1994)
11	Matias Bihan (ST) (DBT)	152(1994)
12	M.G. Nimje (ST)	234(1994)

2. The appointment of above officers shall be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. DOJ Bending in High Court, Delhi and Case No. 0A-1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sourinsha Sinha Vs. DOJ pending in CAT, Delhi.

KRISHNA DUTT, Under Secretary

New Delhi, the 13 October, 2008

No. SM-01/03/2008 The President is pleased to place the following officers holding the post of Non Functional Second Grade of Superintending surveyor Deputy Director in Survey of India in the higher pay scale of Rs. 14,266-100-18,300 of Director in that Department which effect from the date(s) mentioned against their names until further orders:

S.No.	Name of the Officers	Date of Appointment
1.	Shri Rajendra Kumar Meena(ST)	17.07.2008
2.	Shri L. Sanjeev Kumar(SC)	17.07.2008(AN)

B.K. MANTHAN, DESK Officer

#### DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi, the 3rd October 2008

No. A-12023-01/2007-Estt. The President is pleased to appoint Sh. Narendra Kumar Gupta, Senior Research Officer, Central Soil and Materials Research Station, Ministry of Water Resources as Scientist D in the Department of Scientific & Industrial Research in the scale of pay of Rs. 12000-175-16500 (pre-revised) on deputation basis with effect from the forenoon of the 30th September 2008 for a period of two years or till further orders, whichever is earlier.

2. The deputation of Sh. Narendra Kumar Gupta to the Department of Scientific & Industrial Research will be regulated in accordance with the instructions of the Department of Personnel & Training contained in OM No. 2/29/91-P.S. (Pay, II) dated 5th January 1991, as amended from time to time.

S.K. Katra, Under Secretary

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH))

New Delhi, the 7th October 2008.

No. A-12022-1/99-ISM(E-II) Pl.-Consequent upon premature repatriation, Sh. Shiv Basani IAS(JH-76), Joint Secretary in the Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare, stands relieved of his

duties in the Department of AYUSH w.e.f. from the afternoon of 10th October, 2008.

Sh. Shiv Basani IAS (JH : 76), shall report to the Chief Secretary, Govt. of Jharkhand, Ranchi for his next posting.

L.S. Bhatia, Deputy Secretary

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

#### (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 14th October 2008

No. A-19012/13/2008-L.A.- The President is pleased to appoint Shri Manik Chandra Pandit, a Junior Time Scale (JTS) officer of Indian Economic Services (IES), to the post of Research Officer, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 - with effect from the forenoon of 1st September, 2008

D.K. Roy, Under Secretary

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES

New Delhi, the 23rd October 2008.

No. 3-5/2007-FY (ADMIN.) The President is pleased to appoint Shri K. C. Udayaprakashan to the Post of the Senior Instructor (Operations) Group 'A' (Gazetted) in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin in the Pay scale of Rs. 8,000-13,500 - with effect from 15-9-2008 (Afternoon). He will be on probation for a period of two years with effect from the same date.

Sudeepa Kohli, Under Secretary

#### MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 13th October 2008.

No. 12021/1/1999-Estt. (I)-The President is pleased to appoint Shri S. K. Nishchal as Senior Principal Private Secretary on regular basis in the CSSS cadre of this Ministry in the scale of Pay of Rs. 12,000-16,500 - with effect from 12-08-2008(JN).

MAHA BIR PERSHAD, Under Secretary

#### MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 1st September 2008

No. A.32014/2008-Admin. The President is pleased to appoint following permanent Assistant of the CSS Cadre of the Ministry of Youth Affairs & Sports as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500 - in the CSS Cadre of the Ministry of Youth Affairs & Sports with effect from 25th August 2008.—

1. Shri R.K. Goyal
2. Shri P. Bhattacharya



3. Smt. Neelam Ramdey

4. Shri B.S. Kakkar

5. Shri K. K. Paul

6. Shri Champar Singh

The above Section Officers have been included in the Select List of Section Officers for the year 2003 against Seniority Quota at SCSL No. 391, 427, 428, 458, 480 and 782.

The appointment of above Officers shall be subject to outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi. Further, financial benefits if any, like Non Functional Scale granted to the above Officers shall also be subjected to the outcome of the above mentioned two court cases.

H. M. KUNDLIA, Under Secy.

No. 32014/2/08-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Dewanand P. Wethe, a permanent Assistant of the CSS Cadre of the Ministry of Youth Affairs & Sports, as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- in the CSS Cadre of the Ministry of Youth Affairs & Sports with effect from 25th August, 2008.

Shri Dewanand P. Wethe has been included in the Select List of Section Officers for the year 2004 against Seniority Quota at SCSL No. 194.

The appointment of Shri Wethe shall be subject to outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi. Further, financial benefits if any, like Non Functional Scale granted to Shri Wethe shall also be subjected to the outcome of the above mentioned two court cases.

H. M. KUNDLIA, Under Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th September 2008

No. 12034/2/2004—Estt. In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 28.02.2007, the President is pleased to extend the tenure of Shri Rajiv Mathur, IOFS(90) as OSD to the Hon'ble Minister of Tribal Affairs (Shri P.R. Kyndiah) for one year beyond 24th September, 2008 or till the tenure of the Minister, or until further orders, whichever is earliest.

A.K. Saha, Under Secy.

New Delhi, the 03rd October 2008

No. 12034/1/2008—Estt.—President is pleased to appoint Smt. Anu J. Singh IRS (IT:85) as Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Tribal Affairs (Dr. Rameshwar Oraon) at the level of Director, for a period of five years, w.e.f. 08.09.2008 (FN) or till she ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever even occur the earliest.

A.K. SAHA, Under Secretary

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi, the 06th October 2008

No. PF-401/Admn.—The President is pleased to accept the notice dated 13.08.2008 served by Shri Jessie Framjee, Section Officer of Department of Posts seeking voluntary retirement from government service. Accordingly Shri Jessie Framjee, Section Officer will stand retired from Government service with effect from the forenoon of 13.11.2008 under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972.

BIHAGWAN DAS, Assistant Director General (Admn.)

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS (DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 16th September 2008

No. A-12022/1/2008-E-I—In pursuance of Appointment Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's Order No. 1/6/2008-EO(SM-1) dated 07th August, 2008 the President is pleased to appoint Shri P.K. Tripathi, IAS (JK-87), Joint Secretary in the Department of Personnel and Training as Joint Secretary (PPP) in the Department of Road Transport & Highways, on lateral transfer basis, in the pay scale of Rs. 18,400-22, w.e.f. 03.9.2008 (FN) for the balance period of his central deputation tenure of five years i.e. upto 05.10.2010 or until orders, whichever event takes place earlier.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secretary

New Delhi, the 7th October 2008

No. A-38014/2/2008-E-I—Shri C. Harinarayanan, Economic Officer in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) has retired from Government service, on superannuation, w.e.f. 30.9.2008 (AN).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secretary

New Delhi, the 8th October 2008

No. A-1205-17-2008-(I-II-B).—The President is pleased to appoint Shri Brijeshwar Singh, IAS (TN: 75), as Chairman National Highway Authority of India in the rank and pay of Secretary w.e.f. 1.10.2008 (FN) till further orders.

K.S. RAO, Under Secretary

# MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th October 2008

No. 26/08-F.No. 2/2008-Adm. II.—The Government of Madhya Pradesh, the parent Cadre of Shri Indra Chandra Prasad Keshari, IAS(MP, 1988) has conveyed their approval for his continuance on Central deputation upto 29.03.2013 vide their letter No. F.1 85/2008 S-1 dated 03.04.2008. Accordingly, the appointment of Shri Keshari as Joint Secretary in the Ministry of Power as per notification No. 08/08(F.No. 2/2008-Adm.II) dated 17.3.2008 is extended upto 29.03.2013.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secretary

New Delhi, the 29th October 2008

No. 26/2008-F.No. A-380121-2008-Adm.I.—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director (Grade-I Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group-A) Service in the Central Electricity Authority until further orders:

S. No.	Name of the Officer	Date of assumption of charge
1.	Shri Naresn Kumar	06-10/2008 (Forenoon)
2.	Shri Meka Ramakrishna	14-10/2008 (Forenoon)

2. The officers will be on probation for a period of two years from the date of assuming the charge.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secretary

# MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 13th October 2008

No. 7/9/2007-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri Rajan Singh, Assistant Hydrometeorologist to the post of Hydrometeorologist (Sc. B) (Group 'A' post) in the Central Ground Water Board by promotion in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500, w.e.f. the afternoon of 18.06.2008.

M. N. SUKUMARAN, Under Secretary

New Delhi, dated 13th October 2008

No. 7/6/2008-CGWB.—The President is pleased to appoint the following Assistant Executive Engineers as Executive

15.200 in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each:-

Sl. No.	Name of the officers	Date of promotion
	(S/Shri)	
1.	C.L. Verma	09.05.2008
2.	S.K. Manakota	30.04.2008
3.	K.P.C. Rao	30.04.2008
4.	Shobha Rao	16.05.2008

M. N. SUKUMARAN, Under Secretary

New Delhi, the 13th October 2008

No. 7/1/2008-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri Mool Chand Verma, Administrative Officer, CGWB as Senior Administrative Officer (Group-A) in the Central Ground Water Board, CHQ, Faridabad in the scale of pay of Rs. 10000-15200 by promotion, with effect from 18.07.2008 (FN).

M. N. SUKUMARAN, Under Secretary

New Delhi, the 13th October 2008

No. 7/2/2008-CGWB.—The President is pleased to appoint the following 3 (three) officers as Jr. Hydrogeologist in the grade of Scientist-B in the pay scale of Rs. 8000-13500/- by promotion in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each:-

Sl. No.	Name of the officers	Date of taking over charge
1.	Shri G.D. Bhatnagar	06.06.2008 (FN)
2.	Shri J. R. Verma	11.06.2008 (FN)
3.	Shri Gulab Prasad	12.06.2008 (FN)

They will be on probation for a period of two years with effect from the date of their joining which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

M. N. SUKUMARAN, Under Secretary

New Delhi, the 13th October 2008

No. 7/3/2008-CGWB.—The President is pleased to appoint Smt. Roop Rekha, Asst. Chemist as Chemist in the grade of Scientist-B in the pay scale of Rs. 8000-13500/- by promotion in Central Ground Water Board with effect from 01.07.2008 (FN).

She will be on probation for a period of two years with effect from the date of her joining which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

New Delhi, the 13th October 2008

No. 7/16/2000-G.W.I.—In pursuance of this Ministry's Office Order of even number dated 3rd March, 2008, following officers in the grade of Scientist 'B' (Scale Rs. 8000-13500) in the Central Ground Water board are appointed to the grade of Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 under the Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from dates mentioned against their names:—

S. No.	Name of the Officer	Discipline	Date of joining as Scientist 'C'
	Shri/Smt.		
(i)	Kuldip Kumar	Geophysics	05.03.2008
(ii)	V.J. Melanchotan	Geophysics	05.03.2008
(iii)	S.K. Mohinuddin	Hydrogeology	05.03.2008
(iv)	Ashok Kumar	Hydrogeology	05.03.2008
(v)	U. Srivastava	Hydrogeology	17.04.2008
(vi)	Anurag Khanna	Hydrogeology	21.05.2008
(vii)	Dr. A. Ashokan	Hydrogeology	24.03.2008
(viii)	P.R. Gupta	Hydrogeology	05.03.2008
(ix)	Km. S. Bandyopadhyay	Hydrogeology	21.05.2008
(x)	B.N. Gogoi	Hydrogeology	21.05.2008
(xi)	R.K. Guha	Hydrogeology	05.03.2008
(xii)	Sunil Kumar	Hydrogeology	16.04.2008
(xiii)	N.C. Nayak	Hydrogeology	05.03.2008
(xiv)	Smt. Anita Shyam	Hydrogeology	05.03.2008
(xv)	Avinash Kant	Hydrogeology	05.03.2008
(xvi)	Dinesh Tiwari	Hydrogeology	24.03.2008

2. The promotions ordered above under the FCS are "In situ" and personal to the officers concerned.

3. These promotions are further subject to the outcome of any court case on the subject going on/pending in any court of law in the country.

M.N. SUKUMARAN, Under Secretary

New Delhi, the 7th October 2008

No. 15/2008 F.No. 3/4/2007-E.I.—The President is pleased to appoint, on promotion, on regular basis, the following Extra Assistant Directors of the Central Water Engineering (Group-'B') Service, to the Junior Time Scale of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8000-13,500/-with effect from the date mentioned against each:

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Joining
	S/Shri	
1.	B.N. Prusthy	30.04.2008(FN)
2.	P.K. Sen	30.04.2008(FN)
3.	C. Mohanty	21.07.2008(FN)
4.	Arifulla Baig	30.04.2008(FN)
5.	P.K. Patnaik	08.05.2008(FN)
6.	Md. Siraj Ahmed	30.04.2008(FN)
7.	Subrata Sarkar	30.04.2008(FN)
8.	Hardesh Kumar	30.04.2008(FN)
9.	R.S. Tiwari	30.04.2008(FN)
10.	Rajendra Kumar Mishra	15.05.2008(FN)
11.	Ashok Kumar V.	30.04.2008(FN)
12.	D.R. Havanur	30.04.2008(FN)
13.	L. Kodandaraswamy	30.04.2008(FN)
14.	Smt. Sheela Pillai	30.04.2008(FN)
15.	Rakesh Gaurana	30.04.2008(FN)
16.	Rajesh Gupta	30.04.2008(FN)
17.	M. Qaiser Jamal	05.05.2008(FN)
18.	Nashid Iqbal Alvi	01.05.2008(FN)

2. The above officers will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining mentioned against each, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secretary

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 4th September 2008

No. A-11019/1/2001 Admn-I—Consequent upon his inclusion in the Select List Year 2004 of Senior Principal Private Secretary of CSSS cadre of this Ministry vide DOPT's OM S/18/2005-CS-II dated 12th August, 2008 Shri M.E. Kutty who is working as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis and posted in the Ministry of HUPA is appointed as Senior Principal private Secretary in the cadre of this Ministry on regular basis, w.e.f. 12-08-2008 (F/N).

U. VISWANADHAM, Under Secretary

2020.10.17

↑

■

↓

■